



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

२४ भाद्र १९३१ (श०)

(सं० पटना ४७७) पटना, मंगलवार, १५ सितम्बर २००९

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचनाएं

१४ अगस्त २००९

जी० एस० आर० ५, दिनांक १५ सितम्बर २००९—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का० आ० ६४९(अ), दिनांक ९ मार्च, २००९, का० आ० १६२१(अ), दिनांक २ जुलाई, २००९ तथा सा०का०नि०-५३१(अ) दिनांक १६ जुलाई, २००९ के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ (१९५५ का अधिनियम १०) की धारा-३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की पूर्व सहमति से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना संशोधन आदेश, २००९ (पाँचवा संशोधन) आदेश, २००९ तथा केन्द्रीय सरकार चीनी (नियंत्रण) आदेश १९६६ के खण्ड-५ के संदर्भ में राज्यपाल, बिहार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० ९, दिनांक १९ अप्रैल १९८४ के द्वारा प्रकाशित बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन पत्र एकीकरण) आदेश १९८४ के खण्ड-३ के अन्तर्गत व्यापारिक वस्तुओं के लिए संचयन सीमा के लिए निर्गत अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० ४९, दिनांक १७ अक्टूबर, १९८५ में निम्न संशोधन करते हैं, यथा —

संशोधन

चीनी का कोई भी अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यापारी किसी भी समय स्टॉक में निर्वार्त कड़ाह चीनी (वैक्यूम पैन शुगर) या खण्डसारी (खुला कड़ाह चीनी) का कोई स्टॉक ऐसे स्टॉक के प्राप्त करने की तारीख से तीस दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं रखेगा और किसी भी समय स्टॉक में नीचे उल्लिखित मात्रा से अधिक चीनी/खंडसारी नहीं रखेगा :-

(क) थोक व्यापारी — २००० क्वींटल

(ख) खुदरा व्यापारी — ५० क्वींटल

परन्तु इस आदेश की कोई बात निम्नलिखित द्वारा धारण या रखे गये चीनी/खंडसारी के स्टॉक में लागू नहीं होगी :-

(i) सरकारी मदे स्टॉक; या

(ii) राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यापारी द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए रखा गया स्टॉक; या

- (iii) भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम द्वारा रखा गया स्टॉक ।
 2. तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।
 3. यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी ।

(सं० प्र०4-आ०-01/06-खंड-1-3235)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राधा बिहारी ओझा,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

The 14th August, 2009

G.S.R. 5, dated the 15th September 2009 —In exercise of the powers conferred by section-3 of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, published under order 649(E), dated 9th March 2009, S.O.-1621(E), 2nd July, 2009 and GSR-531(E), dated 16th July 2009 and in view of Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on specified Foodstuffs (Fifth Amendment) order 2009 and clause (V) of the Central Government sugar (control) order, 1966 and with prior concurrence of Government of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Amendment in the order issued vide Notification no. GSR 49 dated 17th October 1985 for the storage limit of trade articles under clause (3) of Bihar Trade Articles (Licensing Unification) order 1984, published by Food and Consumer Protection Department, Bihar, Patna under order GSR 9, dated 19th April 1984.—

AMENDMENT

No recognized dealer of sugar shall hold any stock of vacuum pan sugar or khandsari (open pan sugar) for a period exceeding thirty days from the date of receipt by him of such stock and shall not keep in stock at any time vacuum pan sugar/khandsari in excess of the quantities mentioned against each.—

(a) Wholesale dealer -2000 quintals

(b) Retail dealer-50 quintals

Provided that nothing contained in this order shall apply to the holding or keeping of stock of sugar/khandsari .—

(i) On Government account; or

(ii) By the recognized dealers nominated by the State Government or an officer authorised by it to hold stock for distribution through fair price shops; or

(iii) By the Food Corporation of India/Bihar State Food Corporation, stock;

2. Previously issued corresponding notifications/orders shall deem to be amended upto this extent.

3. This notification shall come into force at once.

(No.Pra/04-aa-01/06-Part-I-3235)

By order of the Governor of Bihar,

RADHA BIHARI OJHA,

Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 477-571+200-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>